



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 अग्रहायण 1941 (श0)

(सं० पटना 1311) पटना, मंगलवार, 3 दिसम्बर 2019

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

आदेश

29 नवम्बर 2019

सं० 7/नि. (विधि-08) के.स.स.-07/2003-11556—चूँकि इस कार्यालय आदेश ज्ञापांक 4540 दिनांक 11.08.2014 द्वारा श्री विजय कुमार सिंह, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, नालन्दा को परिसमापनाधीन नालन्दा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि०, नालन्दा का परिसमापक नियुक्त किया गया था, परन्तु श्री विजय कुमार सिंह का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है, इसलिए उक्त परिसमापनाधीन बैंक में परिसमापक की नियुक्ति आवश्यक है।

अतएव मैं, रचना पाटिल, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना, बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 की धारा-44(1) एवं तदनुसार बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम 64(2) के अन्तर्गत बैंक के परिसमापन कार्यों के त्वरित निष्पादनार्थ तुरंत के प्रभाव से जिला सहकारिता पदाधिकारी, नालन्दा को परिसमापनाधीन नालन्दा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि०, नालन्दा का परिसमापक नियुक्त करती हूँ।

आदेश से,
रचना पाटिल,
निबंधक,
सहयोग समितियाँ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1311-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>